

# HCF AND LCM

# म.स.प. और ल.स.प.

## PRACTICE SHEET

### WITH SOLUTIONS

### BY ADITYA RANJAN

 Maths By Aditya Ranjan

 Rankers Gurukul

**PDF** की विशेषताएं  
INDIA में पहली बार

- **UPDATED CONTENT**
- **TYPE WISE**
- **LEVEL WISE**
- **BILINGUAL**
- **ERROR FREE**

**MATHS SPECIAL BATCH**  
में Enroll करने के लिए



8506003399

9289079800

**MATHS EXPERT**

**DOWNLOAD**

**RG VIKRAMJEET APP**



# HCF and LCM/म.स.प. और ल.स.प. ( Practice Sheet With Solution)

1. Three number are in the ratio of 3 : 4 : 5 and their L.C.M. is 2400. Their H.C.F. is:

तीन संख्याएँ 3 : 4 : 5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्त्य है। 2400 है। उनका म.स.प. है:

- (a) 40                              (b) 80  
(c) 120                              (d) 200

2. If the sum of two numbers is 55 and the H.C.F. and L.C.M. of these numbers are 5 and 120 respectively, then the sum of the reciprocals of the numbers is equal to:

यदि दो संख्याओं का योग 55 है और म.स.प और ल.स.प. का योग क्रमशः 5 और 120 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बराबर है:

- (a)  $\frac{55}{601}$                               (b)  $\frac{601}{55}$   
(c)  $\frac{11}{120}$                                       (d)  $\frac{120}{11}$

3. A rectangular courtyard 3.78 meters long 5.25 meters wide is to be paved exactly with square tiles, all of the same size. what is the largest size of the tile which could be used for the purpose?

3.78 मीटर लंबे 5.25 मीटर चौड़े एक आयताकार आंगन को बिल्कुल समान आकार की वर्गाकार टाइलों से पक्का किया जाना है। टाइल का सबसे बड़ा आकार क्या है जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?

- (a) 14 cms                              (b) 21 cms  
(c) 42 cms                                      (d) None of these

4. product of two numbers is 2028 and their H.C.F. is 13. The number of such pairs is:

दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका H.C.F. 13 है। ऐसे युगमों की संख्या है:

- (a) 1                                      (b) 2  
(c) 3    (d) 4

5. The L.C.M of two numbers is 495 and their H.C.F is 5. If the sum of the numbers is 100, then their difference is

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 495 है और उनका म.स.प. 5 है। यदि संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर है

- (a) 10                                      (b) 46  
(c) 70    (d) 90

6. The largest number which on dividing 1657 and 2037 leaves remainders 6 and 5 respectively, is:

वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचता है, वह है:

- (a) 123                                      (b) 127  
(c) 235    (d) 305

7. The G.C.D of 1.08, 0.36 and 0.9 is

1.08, 0.36 और 0.9 का G.C.D है

- (a) 0.03                                      (b) 0.9  
(c) 0.18    (d) 0.108

8. L.C.M of two prime numbers x and y ( $x > y$ ) is 161. The value of  $3y - x$  is :

दो अभाज्य संख्याओं x और y ( $x > y$ ) का लघुत्तम समापवर्त्य 161 है।  $3y - x$  का मान है:

- (a) -2                                      (b) -1  
(c) 1    (d) 2

9. The sum of two numbers is 528 and their H.C.F is 33. The number of pairs of numbers are possible :

दो संख्याओं का योग 528 है और उनका म.स.प. 33 है। संख्याओं के युगमों की संख्या संभव है:

- (a) 4    (b) 6  
(c) 8    (d) 12

10. The H.C.F and L.C.M of two numbers are 11 and 385 respectively. If one number lies between 75 and 125 , then that number is

दो संख्याओं का म.स.प और ल.स.प. क्रमशः 11 और 385 है। यदि एक संख्या 75 और 125 के बीच आती है, तो वह संख्या है

- (a) 77    (b) 90  
(c) 100    (d) 105

11. The difference of two numbers is 14. Their LCM and HCF are 441 and 7. Find the two numbers ?

दो संख्याओं का अंतर 14 है। उनका लघुत्तम समापवर्त्य और म.स.प. 441 और 7 है। दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए?

- (a) 63 and 49                                      (b) 65 and 48  
(c) 64 and 50    (d) 64 and 49







42. What is the ratio between the HCF and LCM of the numbers whose LCM is 48 and the product of the numbers is 384?

उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक (HCF) और लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) के बीच का अनुपात क्या है जिनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है?

**SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 02)**

- (a) 1 : 4                      (b) 1 : 6  
 (c) 1 : 3                      (d) 2 : 5

43. Two numbers are in the ratio of 6 : 5. If their HCF is 3, then what is the LCM of the two numbers?

दो संख्याएँ 6 : 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 3 है, तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक (LCM) कितना होगा?

**SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 03)**

- (a) 64                        (b) 110  
 (c) 90                        (d) 80

44. The ratio of two numbers is 5 : 4 and their HCF is 4. What is their LCM?

दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 4 है उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) क्या है?

**SSC CGL 01/12/2022 (Shift- 04)**

- (a) 80                        (b) 48  
 (c) 36                        (d) 60

45. What is the largest common divisor of the numbers 1026, 2268 and 2430?

संख्या 1026, 2268 और 2430 का महत्तम समापवर्तक (largest common divisor) क्या है?

**SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 01)**

- (a) 108                      (b) 54  
 (c) 81                        (d) 27

46. The HCF of two numbers 2040 and 391 is:

दो संख्याओं 2040 और 391 का महत्तम समापवर्तक (HCF) क्या है?

**SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 03)**

- (a) 17                        (b) 21  
 (c) 16                        (d) 18

47. Three numbers are in the ratio of 2 : 3 : 5 and their LCM is 90. Find their HCF.

तीन संख्याएँ 2:3:5 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) 90 है। उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात कीजिए।

**SSC CGL 02/12/2022 (Shift- 04)**

- (a) 9                           (b) 1  
 (c) 6                           (d) 3

48. Calculate the HCF of  $\frac{12}{5}$ ,  $\frac{14}{15}$  and  $\frac{16}{17}$ .

$\frac{12}{5}$ ,  $\frac{14}{15}$  और  $\frac{16}{17}$  के महत्तम समापवर्तक (HCF) की गणना करें।

**SSC CGL 03/12/2022 (Shift-s 01)**

- (a)  $\frac{4}{255}$                       (b)  $\frac{3}{255}$   
 (c)  $\frac{2}{225}$                       (d)  $\frac{1}{255}$

49. What is the HCF of 36 and 198?

36 और 198 का महत्तम समापवर्तक (HCF) ज्ञात करें।

**SSC CGL 03/12/2022 (Shift- 02)**

- (a) 36                        (b) 22  
 (c) 18                        (d) 9

50. The LCM of two numbers is 120 and the numbers are in the ratio 3 : 8. The sum of the numbers will be:

दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक (LCM) 120 है और संख्याएँ 3 : 8 के अनुपात में हैं। संख्याओं का योग ज्ञात करें।

**SSC CGL 03/12/2022 (Shift- 03)**

- (a) 48                        (b) 55  
 (c) 45                        (d) 60

51. The HCF of two numbers 110 and 1980 is:

दो संख्याओं 110 और 1980 का महत्तम समापवर्तक (HCF) क्या है?

**SSC CGL 05/12/2022 (Shift- 01)**

- (a) 140                      (b) 110  
 (c) 120                      (d) 180

52. The LCM of the two numbers is 4104 and the HCF is 9. If one of the numbers is 171, find the other.

दो संख्याओं का ल.स.प (LCM) 4104 और म.स.प (HCF) 9 है यदि संख्याओं में से एक संख्या 171 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।

**SSC CGL 05/12/2022 (Shift- 04)**

- (a) 218                      (b) 215  
 (c) 220                      (d) 216





75. The LCM of  $x^2 - 8x + 15$  and  $x^2 - 5x + 6$  is:

SSC CGL TIER- II 03/03/2023

- (a)  $(x - 2)(x - 3)(x - 5)$
- (b)  $(x - 6)^2(x + 1)(x - 3)$
- (c)  $(x - 6)(x + 1)(x - 3)$
- (d)  $(x + 6)(x + 1)(x - 3)$

76. If the greatest common factor (HCF) of  $x$  and  $y$  is 15, then the HCF of  $36x^2 - 81y^2$  and  $81x^2 - 9y^2$  is divisible by \_\_\_\_\_?

यदि  $x$  और  $y$  का महत्तम समापवर्तक (HCF) 15 है, तो  $36x^2 - 81y^2$  और  $81x^2 - 9y^2$  का HCF \_\_\_\_\_ से विभाज्य होगा?

SSC CGL TIER- II 06/03/2023

- |         |         |
|---------|---------|
| (a) 135 | (b) 120 |
| (c) 90  | (d) 180 |

## ANSWER KEY

1.(a)	2.(c)	3.(b)	4.(b)	5.(a)	6.(b)	7.(c)	8.(a)	9.(a)	10.(a)
11.(a)	12.(a)	13.(b)	14.(a)	15.(a)	16.(b)	17.(d)	18.(a)	19.(c)	20.(d)
21.(c)	22.(d)	23.(d)	24.(c)	25.(b)	26.(c)	27.(a)	28.(a)	29.(a)	30.(a)
31.(d)	32.(d)	33.(d)	34.(d)	35.(a)	36.(d)	37.(a)	38.(a)	39.(d)	40.(b)
41.(c)	42.(b)	43.(c)	44.(a)	45.(b)	46.(a)	47.(d)	48.(c)	49.(c)	50.(b)
51.(b)	52.(d)	53.(b)	54.(d)	55.(a)	56.(a)	57.(c)	58.(b)	59.(a)	60.(c)
61.(a)	62.(a)	63.(b)	64.(b)	65.(b)	66.(d)	67.(b)	68.(d)	69.(a)	70.(a)
71.(b)	72.(b)	73.(d)	74.(d)	75.(a)	76.(a)				

# SOLUTION

1. (a)

$$\begin{array}{ccc} A & B & C \\ 3x & 4x & 5x \end{array}$$

$$LCM(A, B, C) = 60x = 60 \times HCF$$

$$60x = 2400$$

$$x = 40 = HCF(A, B, C)$$

2. (c)

$$A + B = 55$$

$$We\ know, A \times B = LCM \times HCF$$

$$\Rightarrow A \times B = 5 \times 120 = 600$$

$$\therefore \frac{1}{A} + \frac{1}{B} = \frac{A+B}{AB}$$

$$= \frac{55}{600} = \frac{11}{120}$$

3. (b)

$$3.78\ m = 378\ cm = 2 \times 3 \times 3 \times 3 \times 7$$

$$5.25\ m = 525\ cm = 5 \times 5 \times 3 \times 7$$

$$HCF = 21$$

$\Rightarrow$  largest size of square tiles = 21 cm

4. (b)

$$A \times B = 2028 = 13 \times LCM$$

$$\Rightarrow a \times b = \frac{2028}{13 \times 13} = 12$$

where, a and b are prime

$$\begin{array}{cc} a & b \\ 1 & 12 \\ 3 & 4 \end{array}$$

$\Rightarrow$  only 2 such possible pairs.

5. (a)

$$A + B = 100$$

$$A \times B = 495 \times 5$$

$$= 99 \times 5 \times 5$$

$$= 9 \times 11 \times 5 \times 5$$

$$\Rightarrow A = 45, B = 55$$

$$\Rightarrow B - A = 55 - 45 = 10$$

6. (b)

$$HCF(1657 - 6, 2037 - 5)$$

$$\Rightarrow HCF(1651, 2032) = 127$$

$\Rightarrow$  required no. is 127

7. (c)

$$G.C.D. (1.08, 0.36, 0.9)$$

$$1.08 = \frac{108}{100}$$

$$0.36 = \frac{36}{100}$$

$$0.9 = \frac{90}{100}$$

$$HCF = (108, 36, 90) = 18$$

$$\therefore GCD = \frac{18}{100} = 0.18$$

8. (a)

$$LCM(x, y) = 161$$

$$HCF(x, y) = 1$$

$$\therefore x \times y = 161 = 7 \times 23$$

$$\therefore x > y$$

$$x = 23, y = 7$$

$$\Rightarrow 3y - x = 21 - 23 = -2$$

9. (a)

$$A + B = 528$$

$$A = 33a$$

$$B = 33b$$

$$\Rightarrow 33(a + b) = 528$$

$$a + b = 16$$

$$\begin{array}{cc} a & b \\ 1 & 15 \\ 3 & 13 \\ 5 & 11 \\ 7 & 9 \end{array}$$

$\Rightarrow$  4 such possible pairs.

10. (a)

$$A \times B = HCF \times LCM$$

$$= 11 \times 385$$

$$= 11 \times 11 \times 35$$

$$= 11 \times 11 \times 5 \times 7$$

$$A = 55, B = 77$$

and  $75 < 77 < 125$

The number is 77









